

## राजभाषा विभाग की दिसम्बर, 2020 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (1) कोरोना काल में भी राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने की दिशा में हिंदी प्रचार-प्रसार की यात्रा जारी रखी गयी जिसके क्रम में दिनांक 7 दिसम्बर, 2020 को एन. टी. पी. सी., दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को पावर ग्रिड, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिनांक 16 दिसम्बर, 2020 को डी. आर. डी. ओ. तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को एन. एच.पी.सी. द्वारा दिल्ली में आयोजित हिंदी संगोष्ठियों को मैंने संबोधित किया गया और वहाँ के शीर्ष अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दी। इन कार्यशालाओं में प्रधान मंत्री जी के स्मरणयुक्ति (mnemonics) व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में दस 'प्र' (प्रयत्न, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज़ अथवा पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार-प्रसार, प्रबंधन और प्रयास) की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- (2) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कुल 77 ई-निरीक्षण, 86 ई-बैठकें, 46 अन्य बैठकें/वेबिनार किए गए।
- (3) स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' में वाक्यों की संख्या अब बढ़कर 5,93,207 हो गई है।
- (4) विभाग में 53 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (5) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान / हिन्दी शिक्षण योजना के कार्मिकों द्वारा साइबर सुरक्षा पर एक दिन के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहभागिता की गई।
- (6) संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियों ने दिल्ली स्थित 52 कार्यालयों का निरीक्षण किया।
- (7) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो व इसके केन्द्रों द्वारा 05 त्वरित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 01 संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 196 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।
- (8) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा दिसम्बर माह में 1,361 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया गया।
- (9) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित परीक्षा में सफल हुए 169 में से 103 उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु उनके dossiers मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए।
- (10) वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की सहायक निदेशक की रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरने का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग में भेजा गया।

\*\*\*\*\*